

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 18, 2014/पौष 28, 1935

No. 138]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 18, 2014/PAUSHA 28, 1935

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2013

का.आ. 143)अ).—राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (29 का 2007) की धारा 30 क की उप-धारा 1) भ अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्तं सरकार उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रद्वारा प्रदत्त (3में (लिखितनों के लिए एतद्वारा निम्न सभी संस्थाविनिर्दिष्टसदस्यों से युक्त परिषद की स्थापना करती है, नामतः—

- | | |
|--|------------------|
| 1. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री | अध्यक्ष, पदेन; |
| 2. सचिव, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार | उपाध्यक्ष, पदेन; |
| 3. अध्यक्ष, भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर), पुणे | पदेन सदस्य; |
| 4. अध्यक्ष, भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर), कोलकाता | पदेन सदस्य; |
| 5. अध्यक्ष, भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर), मोहाली | पदेन सदस्य; |
| 6. अध्यक्ष, भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर), भोपाल | पदेन सदस्य; |
| 7. अध्यक्ष, भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर), तिरुवनन्तपुरम | पदेन सदस्य; |

8. निदेशक, भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर), पुणे पदेन सदस्य;
9. निदेशक, भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर), कोलकाता पदेन सदस्य;
10. निदेशक, भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर), मोहाली पदेन सदस्य;
11. निदेशक, भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर), भोपाल पदेन सदस्य;
12. निदेशक, भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर), तिरुवनन्तपुरम पदेन सदस्य;
13. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - पदेन सदस्य;
14. महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - पदेन सदस्य;
15. सचिव, भारत सरकार, जैव प्रौद्योगिकी, भारत सरकार - पदेन सदस्य;
16. सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार - पदेन सदस्य;
17. सचिव, भारत सरकार, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार पदेन सदस्य;
18. सचिव, भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार - पदेन सदस्य;
19. अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पदेन सदस्य;

क. विजिटर द्वारा नामित -

20. डॉ. आर.ए. माशेलकर, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर पदेन सदस्य;
21. डॉ. एस.जी. दानी, विशिष्ट प्रोफेसर, टीआईएफआर और प्रख्यात गणितज्ञ पदेन सदस्य;
22. डॉ. वी.एस. रामामूर्ति, भूतपूर्व निदेशक, एनआईएस, आईआई साइंस, बंगलौर और भूतपूर्व सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पदेन सदस्य;
23. प्रोफेसर इंदिरा नाथ, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, रोग विज्ञान संस्थान तथा संस्थापक प्रमुख, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, एम्स पदेन सदस्य;
24. श्री वी.के. सारस्वत, सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास तथा रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार पदेन सदस्य;

ख. लोक सभा और राज्य सभा द्वारा चुने गए

25. श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य (लोकसभा) पदेन सदस्य;
26. श्री अदागुरु विश्वनाथ, संसद सदस्य (लोकसभा) पदेन सदस्य;
27. श्री विवेक गुप्ता, संसद सदस्य (राज्यसभा) पदेन सदस्य;

ग. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित

28. श्री विवेक कुमार, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल पदेन सदस्य;
29. श्री संजय कुमार, प्रधान सचिव, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र पदेन सदस्य;
30. वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार पदेन सदस्य;

31. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (तकनीकी), भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार पदेन सदस्य सचिव;

[फा. सं. 40-26/2012-टीएस-VII]
अमिता शर्मा ,अपर सचिव

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Higher Education)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2013

S.O. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30A of the National Institutes of Technology Act, 2007 (29 of 2007) the Central Government hereby establishes the Council for all the Institutes specified in column (3) of the Second Schedule to the said Act, consisting of the following members, namely:—

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Minister in charge of the Ministry of Human Resource Development, Government of India - | Chairman,
ex-officio; |
| 2. Secretary to the Government of India, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India - | Vice-Chairman
ex-officio; |
| 3. The Chairperson, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune. | Member, ex-officio; |
| 4. The Chairperson, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata. | Member, ex-officio; |
| 5. The Chairperson, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali. | Member, ex-officio; |
| 6. The Chairperson, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Bhopal. | Member, ex-officio; |
| 7. The Chairperson, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Thiruvananthapuram. | Member, ex-officio; |
| 8. The Director, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune. | Member, ex-officio; |
| 9. The Director, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata. | Member, ex-officio; |
| 10. The Director, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali. | Member, ex-officio; |
| 11. The Director, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Bhopal. | Member, ex-officio; |
| 12. The Director, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Thiruvananthapuram. | Member, ex-officio; |
| 13. The Chairman, University Grants Commission - | Member, ex-officio; |
| 14. The Director General, Council of Scientific and Industrial Research - | Member, ex-officio; |
| 15. Secretary to the Government of India, Department of Bio-technology, Government of India - | Member, ex-officio; |
| 16. Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy, Government of India - | Member, ex-officio; |
| 17. Secretary to the Government of India, Department of Information Technology, Government of India - | Member, ex-officio; |

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 18. | Secretary to the Government of India, Department of Space, Government of India - | Member, ex-officio; |
| 19. | The Chairman, Defence Research and Development Organisation - | Member, ex-officio; |
| A. Nominated by the Visitor - | | |
| 20. | Dr. R.A. Mashelkar, National Research Professor | Member, ex-officio; |
| 21. | Dr. S.G.Dani, Distinguished Professor, TIFR and eminent Mathematician | Member, ex-officio; |
| 22. | Dr. V.S. Ramamurthy, former Director NIAS, IISc. Bangalore and former Secretary, DST. | Member, ex-officio; |
| 23. | Prof. Indira Nath, Professor Emeritus, Institute of Pathology and founder Head, Department of Biotechnology, AIIMS. | Member, ex-officio; |
| 24. | Shri V.K. Saraswat, Secretary, Defence Research and Development and Scientific Adviser to Raksha Mantri. | Member, ex-officio; |
| B. Chosen by the House of the People and the Council of State | | |
| 25. | Member of Parliament, Shri Rakesh Singh (Lok Sabha) | Member, ex-officio; |
| 26. | Member of Parliament, Shri Adagooru Vishwanath (Lok Sabha) | Member, ex-officio; |
| 27. | Member of Parliament, Shri Vivek Gupta (Rajya Sabha) | Member, ex-officio; |
| C. Nominated by the respective State Governments | | |
| 28. | Shri Vivek Kumar, Secretary, Higher Education Department, West Bengal | Member, ex-officio; |
| 29. | Shri Sanjay Kumar, Principal Secretary, Department of Higher & Technical Education, Maharashtra | Member, ex-officio; |
| 30. | Financial Adviser, Ministry of Human Resource Development, Government of India - | Member, ex-officio |
| 31. | Additional Secretary/ Joint Secretary (Technical), Government of India, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India - | Member-Secretary, ex-officio; |

[F.No.40-26/2012-TS-VII]

AMITA SHARMA, Addl. Secy.